

## Hin 1A05b Compréhension de l'écrit – Exercice de révision

I : Lisez attentivement le récit ci-dessous et répondez ensuite *en français* aux questions suivantes: (30)

कल शुक्रवार था और मेरे बड़े अच्छे दोस्त सुरेश का जन्मदिन। हम दोनों बहुत समय से एक दूसरे को जानते हैं। विश्वाविद्यालय में साथ-साथ पढ़ते थे। सुरेश पढ़ाई-लिखाई में बहुत अच्छा था जबकि मैं ज़रा कमज़ोर था। वह अकसर मेरे यहां आकर मेरी मदद करता था। गणित की मुश्किलें मुझे समझाता था।

इन दिनों सुरेश दिल्ली के एक उपनगर में रहता है। मैं मेट्रो से उसके यहां गया। पहले कभी भी वहां नहीं गया था। रास्ता लंबा था और काफ़ी भीड़ थी इसलिए पूरे डेढ़ घंटे लगे। रात के तकरीबन साढ़े आठ बजे पहुंचा। उसका मकान काफ़ी बड़ा है और उसमें कुल मिलाकर पांच कमरे हैं। एक छोटा सा बगीचा भी है। सुरेश को हमेशा से फूलों का शौक है।

सुरेश की बीवी ने मेरा स्वागत किया। उसका नाम कविता है। एक अखबार के लिए काम करती है। वे दोनों युनिवर्सिटी के पुस्तकालय में मिले थे। करीब पांच साल पहले उन्होंने शादी की। आज उनकी एक छोटी बच्ची है जिसका नाम मोना है। ढाई साल की है पर बहुत शैतान है !

सुरेश ने एक बड़ी पार्टी की थी। कई मेहमानों को बुलाया था। उसके दफ़्तर के कुछ लोग मौजूद थे। मैं उन्हें नहीं जानता था। वे आपस में काम के बारे में बातचीत कर रहे थे। कविता के परिवारवाले भी थे जो आपस में मज़ाक कर रहे थे। लेकिन कोई भी पड़ोसी नहीं आया था।

खाना सुरेश और कविता ने एकसाथ बनाया था। तरह-तरह की चीज़ें थीं। मुझे तो सब्ज़ियां बहुत अच्छी लगीं, दाल भी बड़ी स्वादिष्ट थी। लेकिन मांसाहारी खाने में मिर्च ज़रा ज़्यादा थी !

करीब नौ बजे सुरेश ने हमको अपने शिमला सफ़र की कुछ तस्वीरें दिखाईं। सुरेश का परिवार पहाड़ों से है और वे हर साल गर्मी की छुट्टियां बिताने वहां जाते हैं। तस्वीरें बहुत सुन्दर थीं और सभी मेहमानों ने उनकी तारीफ़ की।

सुरेश को ढेर सारे तोहफ़े भी मिले। कविता ने उसे एक नई और काफ़ी महंगी विदेशी घड़ी दी। आफ़िस के लोगों ने उसे फूलों के बारे में एक किताब दी। मेरा तोहफ़ा भगवान शिव की एक पुरानी मूर्ति थी। यह मैंने राजस्थान की राजधानी जयपुर में खरीदी थी। सुरेश इन सब चीज़ों से बहुत खुश था और उसने हम सबसे शुक्रिया कहा।

पार्टी रात के करीब ग्यारह बजे खत्म हुई। सब लोग काफ़ी थक गए थे। एक के बाद एक सब अपने-अपने घर लौटे। मेरे पास गाड़ी नहीं थी तो सुरेश के एक दोस्त ने मुझे मेरे यहां छोड़ा। वह मेरे घर के पास ही में रहता है।

इस मज़ेदार पार्टी को मैं कभी नहीं भूलूंगा !

- |  |   |
|--|---|
| (1) C'était quel jour de la semaine hier ?   | 1 |
| (2) Depuis quand est-ce que je connais Suresh ?  | 1 |
| (3) De quelle manière Suresh m'était-il utile autrefois ?  | 3 |
| (4) Où habite-t-il en ce moment ?  | 1 |
| (5) Quelle difficulté ai-je rencontrée en me rendant chez lui ?  | 3 |
| (6) Décrivez la maison de Suresh.  | 2 |
| (7) Que savons-nous au sujet de l'épouse de Suresh ?   | 4 |
| (8) Quelles étaient les personnes que Suresh avait invitées ? Que faisaient-elles lorsque je suis arrivé ? | 5 |
| (9) Comment était le repas ?   | 4 |
| (10) Que s'est-il passé vers 9 heures ?  | 2 |
| (11) Quel genre de présents a-t-il reçus ? Qu'est-ce que je lui ai offert ?                                | 3 |
| (12) Comment suis-je rentré chez-moi ?   | 1 |

